

# लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधीन सम विश्वविद्यालय)

शक्ति नगर, मेला रोड, ग्वालियर - 474 002 (म.प्र.)

## Lakshmbai National Institute of Physical Education, Gwalior

(Deemed to be University under Govt. of India, Ministry of Youth Affairs & Sports)

Shakti Nagar, Mela Road, Gwalior - 474 002 (MP)



वित्त अधिकारी पद के लिये आवेदन-पत्र

### APPLICATION FORM FOR THE POST OF FINANCE OFFICER

(सूचना क्र. ई-131/100 दिनांक 11.11.2022 Notice No. E-131/100 dtd. 11.11.2022)

1. Full Name (in Block Letters) \_\_\_\_\_

पूरा नाम हिन्दी में (साफ अक्षरों में) \_\_\_\_\_

2. Father's/Husband's Name \_\_\_\_\_

पिता/पति का नाम \_\_\_\_\_

Affix Recent  
Passport Size  
Photograph

3. (a) Address for Correspondence

पत्राचार का पता

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Tel. No. \_\_\_\_\_

Fax No. \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

(b) Permanent Address

स्थायी पता

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Tel. No. \_\_\_\_\_

Fax No. \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

4. Date of Birth & Place

जन्म तिथि एवं जन्म स्थान

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Age as on closing date बंद होने की दिनांक को आयु  
\_\_\_\_ Years वर्ष \_\_\_\_ Months माह \_\_\_\_ Days दिन

5. (a) Sex: Male/Female लिंग : पुरुष  / स्त्री

(b) Caste : SC अ.जा.  / ST अ.ज.जा.

OBC अ.पि.वर्ग  / General सामान्य

Please tick in the appropriate box

उपर्युक्त बॉक्स में सही का निषान लगावें।

6. Date of Retirement under existing Rules

वर्तमान नियमों के अन्तर्गत सेवा निवृत्ति दिनांक

7. Marital Status : Married / Unmarried

वैवाहिक स्थिति : विवाहित  / अविवाहित

8. (a) Nationality राष्ट्रीयता \_\_\_\_\_

(b) Religion धर्म \_\_\_\_\_

9. Academic Qualification (Commencing with the High School or an equivalent examination)

शैक्षणिक योग्यता (हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा से प्रारम्भ करें)

Examination Degree परीक्षा / उपाधि	Subject / Specialization विषय / विशेषज्ञता	Year वर्ष	Division श्रेणी	% of Marks / Grade अंक % / ग्रेड	University / College / Board विश्वविद्यालय / कॉलेज / बोर्ड	Distinctions / Scholarship विशिष्टता / छात्रवृत्ति
Matriculation / 10 <sup>th</sup> / Secondary						
Intermediate / +2 / HS						
Graduation / +3						
Post Graduation						



Examination Degree परीक्षा / उपाधि	Subject / Specialization विषय / विशेषज्ञता	Year वर्ष	Division श्रेणी	% of Marks / Grade अंक % / ग्रेड	University / College / Board विश्वविद्यालय / कॉलेज / बोर्ड	Distinctions / Scholarship विशिष्टता / छात्रवृत्ति
Any other Qualification						

10. Experience possessed in:

Field of experience	Nature of Duties	Period of Experience	Organization in which the relevant experience was gained
(a) Finance & Accounts Matter			
(b) Administrative			

11. Please indicate the following particulars of the present post held:

- a) Present post held with the :  
b) Whether regular / Ad hod :  
c) Scale of pay :  
d) Present Basic Pay :

12. Position held:

Name & Address of Employer नियोक्ता का नाम और पता	Post Held पद	Pay Scale/ Pay Band and GP/AGP वेतनमान	Period of Employment नियोजन की अवधि	
			From से	To तक

\* Govt./Quasi Govt./Autonomous/Private. सरकारी/अर्धसरकारी/स्वायत्तशासी/निजी

**Additional details about present employment.** वर्तमान नियोजन के बारे में अतिरिक्त जानकारी.

I. Please indicate whether working under:- कृपया बतायें कि क्या निम्न के अन्तर्गत कार्यरत हैं:-

- (a) Central Government केन्द्र सरकार  
(b) State Government राज्य सरकार  
(c) Autonomous Organization स्वायत्तशासी संस्था  
(d) Public Undertakings सार्वजनिक उपक्रम  
(e) University विश्वविद्यालय  
(f) Armed Forces सैनिक बल  
(g) Others अन्य

II. Are you in the Revised Scale of Pay? If yes, please give the date from which the revision took place, Pay Band & Grade Pay/Academic Grade Pay and write total emoluments per month presently drawn.

क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हां, कृपया संशोधित वेतनमान की प्रभावी दिनांक, पे-बैंड, ग्रेड पे/ऐकेडेमिक ग्रेड पे दें तथा वर्तमान में आहरित कुल वेतन प्रतिमाह लिखें।

12 Any other relevant information, if not given above, which you would like to mention in support of your suitability for the post applied for (Please give the details in **Annexure**)  
आवेदित पद से सम्बन्धित अन्य कोई सूचना जो ऊपर न दी गयी हो, जिसे आप आवेदित पद हेतु अपनी उपयुक्तता को दर्शाने हेतु देना चाहेंगे। (कृपया संलग्नक में विवरण दें)।

13. Give names, designations and addresses (Phone/Fax No./e-mail, if any, of three reference not related to you. Reference should be of persons with or under who have intimate knowledge of your work.  
तीन सन्दर्भ व्यक्तियों के नाम, उनके डाक पते (फोन, फ़ैक्स नं. यदि हैं) के साथ। सन्दर्भ व्यक्ति वह होना चाहिये जिसके साथ या जिसके अधीन अभ्यर्थी ने कार्य किया हो या जो अभ्यर्थी के काम से पूर्णतया अवगत हो।

(i) Name, Designation & Address:

Ph.No.

Mobile No.

E-mail :

(ii) Name, Designation & Address:

Ph.No.

Mobile No.

E-mail :

**List of Enclosures**

संलग्न अभिलेखों की सूची

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



## Declaration to be signed by the applicant

I hereby declare that the information given in this form is correct and true to the best of my knowledge and belief. If at any time, I am found to have concealed /suppressed any material/information or given any false details, my appointment shall be liable to be summarily terminated without notice or compensation.

### अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित घोषित पत्र

मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गयी सभी सूचनायें मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास में सत्य है। यदि किसी समय यह पाया गया कि मैंने कोई सूचना छिपायी है अथवा मेरे द्वारा दी गयी कोई सूचना असत्य पायी गयी तो मेरी नियुक्ति बिना किसी नोटिस अथवा मुआवजे के बर्खास्त कर दी जायेगी।

Place:  
स्थान

Signature of Applicant  
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

Dated:  
दिनांक

Name in BLOCK LETTERS  
नाम

### **CERTIFICATE**

(To be given by the employer)

Certified that

- a) Particulars furnished by candidate have been verified and found correct as per office records.
- b) No vigilance case or disciplinary proceedings or criminal proceedings are either pending or contemplated against him/her.
- c) No penalty, major or minor, was imposed on the officer during the last 10 years.
- d) The integrity of the officer on the basis of ACRs/APARs is beyond doubt.
- e) The Competent Authority in this organization has also agreed to relieve him/her to join as Finance Officer, LNIPE, Gwalior on deputation for a period of five years, as also, further extended period, if any, on usual terms and conditions of Government of India, if he is offered the appointment.
- f) Duly attested copies of ACRs/APARs, as the case may be, for the last 5 years are enclosed.

Place:  
स्थान

Signature

Dated:  
दिनांक

Telephone  
टेलीफोन

(Head of the Institution/Organization)  
संस्थान/संगठन प्रमुख

Fax  
फैक्स  
ई-मेल

Designation with SEAL  
पद  
Address :  
पता